

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य जनपद शाहजहाँपुर 07.06.2021

थाना सदर बाजार को मिली बड़ी कामयाबी,

चोर गिरोह का किया खुलासा, 03 शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध असलहा व नकब लगाने का सामान बरामद ।

विगत कई दिनों से बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों का सामान चोरी किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा इन सूचनाओं को गम्भीरता से लेते हुए श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्वेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना सदर बाजार पुलिस की टीम गठित कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये।

गठित पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना को डेवलप किया तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सादा वस्त्रों में रहकर सुरागरसी व पतारसी की जाने लगी। इसी क्रम में दिनांक 06.06.21 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रासिंग फाटक के पास में 03 व्यक्ति (02 पुरुष, 1 महिला) नकब लगाने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंच कर समय करीब 1.30 बजे रात में 03 अभियुक्तों को रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से नकब लगाने के उपकरण व 01 नाजायज तमन्चा 315 बोर मय 02 कारतूस व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुये। अभियुक्त गण के विरुद्ध मु0अ0सं0 350/21 धारा 398/401 भादवि बनाम कुनाल कश्यप, सरताज उर्फ कुरकुट व राधा तथा मु0अ0सं0 351/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम कुनाल कश्यप व मु0अ0सं0 352/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 बनाम सरताज उर्फ कुरकुट के पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- कुनाल कश्यप पुत्र रामू कश्यप नि0 घण्टाघर थाना सदरबाजार
- 2- सरताज उर्फ कुरकुट पुत्र इकरार नि0 खेडा कस्बा व थाना निगोही शाहजहाँपुरा
- 3- राधा पुत्री देशराज नि0 ईशापुर मिलकिया थाना निगोही शाहजहाँपुरा

### बरामदगी का विवरण

- 1- नकब लगाने के उपकरण (सबल, सरिया)
- 2- 01 अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय 2 कार0 जिन्दा अभियुक्त कुनाल कश्यप से
- 3- 01 अदद चाकू नाजायज अभियुक्त सरताज उर्फ कुरकुट से

### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में बताया कि हमारा एक गिरोह है हम लोग रोडबेज बस स्टैण्ड पर या उसके आसपास रहते हैं जब भी कोई अकेला व्यक्ति/महिला बस से उतकर ऑटो रिक्शा में बैठते थे तो हम भी उसके पास जाकर आटो में बैठ जाते थे तथा उसका सामान योजनाबद्ध तरीके से चुरा लेते थे। तदोपरांत चोरी किया सामान महिला साथी को दे देते थे जो उसे लेकर मौके से चली जाती थी। फिर हम सब लोग उस चोरी किये गये माल को आपस में बांट लेते थे। हम तमन्चा व चाकू व्यक्तियों को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखते थे। आज हम लोग मिलकर नकब लगाकर चोरी करने की योजना बना रहे थे कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

### पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 पंकज कुमार चौकी प्र0 कैंट थाना सदर बाजार
- 2- हे0का0 सुशील शर्मा थाना सदर बाजार
- 3- हे0का0 प्रीतम सिंह थाना सदर बाजार
- 4- का0 2150 रोहित कुमार थाना सदर बाजार
- 5- म0का0 हिमानी थाना सदर बाजार